



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 2006/फाल्गुन 19, 1927

No. 13]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 2006/PHALGUNA 19, 1927

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2006

आ.अ. 14(अ).— यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी और भारत के राजपत्र में 10 मार्च, 2006 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य से यह अपेक्षा की है कि राज्य सभा के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्यों को निर्वाचित करे :-

सारणी

राज्य	निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	6
छत्तीसगढ़	1
गुजरात	4
हरियाणा	1
हिमाचल प्रदेश	1
झारखंड	2
कर्नाटक	4

(1)	(2)
मध्य प्रदेश	5
महाराष्ट्र	6
उत्तर प्रदेश	10
उत्तरांचल	1
पश्चिम बंगाल	5
उड़ीसा	3
राजस्थान	3

अतः, अब, उक्त अधिनियम की, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) उक्त वर्णित राज्यों में प्रत्येक निर्वाचन के संबंध में :-

- (क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख - 17 मार्च, 2006 (शुक्रवार)
- (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख - 18 मार्च, 2006 (शनिवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख- 20 मार्च, 2006 (सोमवार)
- (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, और 28 मार्च, 2006 (मंगलवार)
- (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा 31 मार्च, 2006 (शुक्रवार)
नियत करता है; और

(आ) 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय, उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उपरोक्त सभी राज्यों में, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा ।

[सं. 318/रा. स./2006(1)]

आदेश से,

ए. के. मजुमदार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th March, 2006

O.N.14(E).— Whereas, the President of India has, by notification issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on 10th March, 2006 been pleased to call upon the elected members of each of the Legislative Assemblies of the States, specified in columns (1) of the **TABLE** below, to elect to the Council of States, the number of members specified against that State in column (2) of the said **TABLE**;

TABLE

(1)	(2)
States	No. of Members to be elected
Andhra Pradesh	6
Chhattisgarh	1
Gujarat	4
Haryana	1
Himachal Pradesh	1
Jharkhand	2
Karnataka	4
Madhya Pradesh	5
Maharashtra	6
Uttar Pradesh	10
Uttaranchal	1
West Bengal	5
Orissa	3
Rajasthan	3

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 39 and section 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby –

- (A) appoints, with respect to the said election in each of the above mentioned States, -
- the 17th March, 2006 (Friday), as the last date for making nominations;
 - the 18th March, 2006 (Saturday), as the date for the scrutiny of the nominations;
 - the 20th March, 2006 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - the 28th March, 2006 (Tuesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - the 31st March, 2006 (Friday), as the date before which the election shall be completed; and
- (B) fixes the hours from 9:00 A.M. to 4:00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in all the above mentioned States, on the date specified above, for the election.

[No. 318/CS/2006(1)]

By Order,

A. K. MAJUMDAR, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2006

आ.अ. 15(अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की सरकार के परामर्श से राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचनों के संबंध में भारत के राजपत्र में 10 मार्च, 2006 को प्रकाशित राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में इसके द्वारा :-

(1) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर पदाभिहित करता है ; और

(11) उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को , रिटर्निंग आफिसर के कार्य के निष्पादन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है ।

सारणी

राज्य	रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)	(3)
आंध्र प्रदेश	सचिव, राज्य विधान मंडल, आंध्र प्रदेश	उप सचिव, राज्य विधान मंडल, आंध्र प्रदेश
बिहार	कार्यकारी सचिव, बिहार विधान सभा	उप सचिव, बिहार विधान सभा
छत्तीसगढ़	सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा	उप सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा
गुजरात	सचिव, गुजरात विधान मंडल सचिवालय	उप सचिव, गुजरात विधान मंडल सचिवालय
हरियाणा	सचिव, हरियाणा विधान सभा	संयुक्त सचिव, हरियाणा विधान सभा
हिमाचल प्रदेश	सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा	उप सचिव, (विधायिका) हिमाचल प्रदेश विधान सभा
झारखंड	सचिव, झारखंड विधान सभा	अपर सचिव, झारखंड विधान सभा
कर्नाटक	अपर सचिव, कर्नाटक विधान सभा	संयुक्त सचिव-11, (आई/सी) कर्नाटक विधान सभा
मध्य प्रदेश	प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधान सभा	उप सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा
महाराष्ट्र	सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय	संयुक्त सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय
उड़ीसा	सचिव, उड़ीसा विधान सभा	संयुक्त सचिव, उड़ीसा विधान सभा
राजस्थान	सचिव, राजस्थान विधान सभा	विशेष सचिव, राजस्थान विधान सभा
उत्तर प्रदेश	प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश विधान सभा	विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा
उत्तरांचल	सचिव, उत्तरांचल विधान सभा	अपर सचिव, उत्तरांचल विधान सभा
पश्चिम बंगाल	सचिव, पश्चिम बंगाल विधान सभा	संयुक्त सचिव-सह-समिति अधिकारी,

[सं. 318/रा. स./2006(2)]

आदेश से,

ए. के. मजुमदार, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2006

O.N. 15(E).— In pursuance of section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of each State, specified in coloumn (1) of the TABLE below, hereby:—

- (i) designates the officer, specified in the corresponding entry in column (2) of the said TABLE, to be the Returning Officer; and
- (ii) appoints the officer(s), specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, to be the Assistant Returning Officer(s) to assist the Returning officer in the performance of his functions;

in respect of the biennial elections to the Council of States, to be held in that State, in pursuance of the notification of the President of India, published in the Gazette of India on 10th March, 2006 :-

TABLE

STATE	Officer Designated as Returning Officer	Officer Appointed as Assistant Returning Officer
1.	2.	3.
Andhra Pradesh	Secretary to State Legislature, Andhra Pradesh	Deputy Secretary to State Legislature, Andhra Pradesh
Bihar	Acting Secretary, Bihar Legislative Assembly	Deputy Secretary, Bihar Legislative Assembly
Chhattisgarh	Secretary, Chhattisgarh Legislative Assembly	Deputy Secretary, Chhattisgarh Legislative Assembly
Gujarat	Secretary, Gujarat Legislature Secretariat	Deputy Secretary Gujarat Legislature Secretariat
Haryana	Secretary, Haryana Vidhan Sabha	Joint Secretary, Haryana Vidhan Sabha
Himachal Pradesh	Secretary, Himachal Pradesh Legislative Assembly	Deputy Secretary (Legislation) Himachal Pradesh Legislative Assembly

717 GI/06-2

Jharkhand	Secretary, Jharkhand Legislative Assembly	Additional Secretary, Jharkhand Legislative Assembly
Karnataka	Additional Secretary, Karnataka Legislative Assembly	Joint Secretary-II(I/c), Karnataka Legislative Assembly
Madhya Pradesh	Principal Secretary, Madhya Pradesh Legislative Assembly	Deputy Secretary, Madhya Pradesh Legislative Assembly
Maharashtra	Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat	Joint Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat
Orissa	Secretary, Orissa Legislative Assembly	Joint Secretary Orissa Legislative Assembly
Rajasthan	Secretary, Rajasthan Legislative Assembly	Special Secretary, Rajasthan Legislative Assembly
Uttar Pradesh	Principal Secretary, Legislative Assembly, Uttar Pradesh	Special Secretary, Legislative Assembly, Uttar Pradesh
Uttaranchal	Secretary, Uttaranchal Legislative Assembly	Additional Secretary, Uttaranchal Legislative Assembly
West Bengal	Secretary, West Bengal Legislative Assembly	Joint Secretary-cum-Committee Officer

[No. 318/CS/2006(2)]

By Order,

A. K. MAJUMDAR, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2006

आ.अ. 16(अ).— यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी और भारत के राजपत्र में 10 मार्च, 2006 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा बिहार राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य से यह अपेक्षा की है कि राज्य सभा के लिए छह (6) सदस्यों को निर्वाचित करे :-

अतः, अब, उक्त अधिनियम की, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा :-

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में :-

- | | |
|--|---------------------------|
| (क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख - | 17 मार्च, 2006 (शुक्रवार) |
| (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख - | 18 मार्च, 2006 (शनिवार) |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख— | 20 मार्च, 2006 (सोमवार) |
| (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, और | 29 मार्च, 2006 (बुधवार) |
| (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा नियत करता है, और | 31 मार्च, 2006 (शुक्रवार) |

(आ) 9.00 बजे पूर्वान्ह से 4.00 बजे अपराहन तक का समय, उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा ।

[सं. 318/स. स./2006(3)]

आदेश से,

ए. के. मजुमदार, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2006

O.N.16(E)— Whereas, the President of India has, by notification issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on 10th March, 2006 been pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Bihar to elect six (6) members to the Council of States:

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 39 and section 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby –

(A) appoints, with respect to the said election, -

- (a) the 17th March, 2006 (Friday), as the last date for making nominations;
- (b) the 18th March, 2006 (Saturday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 20th March, 2006 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 29th March, 2006 (Wednesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
and
- (e) the 31st March, 2006 (Friday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) fixes the hours from 9:00 A.M. to 4:00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

[No. 318/CS/2006(3)]

By Order,

A. K. MAJUMDAR, Secy.